

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल
ब्लू प्रिन्ट (प्रश्न पत्र का स्वरूप)
BLUE PRINT OF QUESTION
परीक्षा : हाईस्कूल-2015-2016

कक्षा :- 10वीं
 विषय :- विज्ञान

पूर्णांक :- 75
 समय : 3:00 घण्टे

स.क्र.	इकाई एवं विषय वस्तु	इकाई पर आवंटित अंक	वस्तु निष्ठ प्रश्न	अंकवार प्रश्नों की संख्या						कुल प्रश्न
				1 अंक	2 अंक	4 अंक	5 अंक	6 अंक	7 अंक	
1	रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य एवं प्रमुख रासायनिक योगिक	06	1	—	—	1	—	—	—	1
2	प्रकाश	07	1	1	1	—	—	—	—	2
3	विद्युत	08	2	1	1	—	—	—	—	2
4	ऊजा के स्रोत	05	1	—	1	—	—	—	—	1
5	जैविक प्रक्रियाएँ, पोषण एवं श्वसन	06	1	—	—	1	—	—	—	1
6	परिवहन, उत्सर्जन	08	3	—	—	1	—	—	—	1
7	प्रजनन, वृद्धि, अनुवांशिकी एवं विकास	05	1	—	1	—	—	—	—	1
8	धातुएँ एवं अधातुएँ	09	3	—	—	—	1	—	—	1
9	(कार्बनिक यौगिक) कार्बन के यौगिक	08	2	1	1	—	—	—	—	2
10	पर्यावरण एवं पर्यावरणीय समस्याएँ, औषधीय पौधों का वर्गीकरण	08	2	—	—	—	1	—	—	1
11	ब्रह्माण्ड— वृहत्तर पर्यावरण पुनरावृत्ति	05	3	1	—	—	—	—	—	1
	योग	75	20	8	20	15	12	—	—	14+4 =18

निर्देश:- प्रश्नपत्र निर्माण हेतु विशेष निर्देश-

- प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। जिसके अन्तर्गत एक वाक्य में उत्तर, मेचिंग, सही विकल्प तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। (1x4x5=20) यह प्रश्न प्रत्येक छात्र को हल करना अनिवार्य है।
- प्रश्न क्र. 5 से 18 तक प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार रहेगी-
 अतिलघुउत्तरीय प्रश्न 02 अंक लगभग 30 शब्द
 लघुउत्तरीय प्रश्न 04 अंक लगभग 75 शब्द
 दीर्घउत्तरीय प्रश्न 05 अंक लगभग 120 शब्द
 दीर्घउत्तरीय प्रश्न 06 अंक लगभग 150 शब्द
 निबंधात्मक प्रश्न 7 अंक लगभग 250 से 300 शब्द
- वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर शेष सभी प्रश्नों में विकल्प योजना रहेगी।
- विकल्प के प्रश्न उसी इकाई से, समान कठिनाई स्तर वाले तथा पाठ्यक्रम अनुसार होना चाहिए।
- कठिनाई स्तर - 40% सरल प्रश्न, 45% सामान्य प्रश्न, 15% कठिन प्रश्न।